



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज
जनसम्पर्क विभाग

संख्या : कोर/जी/पीआर/010/भाग-XXII

दिनांक 15.09.2021

प्रेस विज्ञप्ति

राजभाषा पखवाड़ा उदघाटन समारोह सम्पन्न

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में दिनांक 15.09.2021 को महाप्रबंधक, श्री यशपाल सिंह की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर राजभाषा पखवाड़ा उदघाटन समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही राजभाषा पखवाड़ा समारोह का शुभारम्भ हो गया। इस अवसर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, श्री सुरेश कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए अपील की कि अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दैनिक सरकारी काम काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विविध कार्यक्रमों में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाएं।

महाप्रबंधक श्री यशपाल सिंह ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की गुंजाइश है। यह अवसर अपनी मातृभाषा और राजभाषा पर गौरव करने का है। आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। राजभाषा संबंधी नियमों की अनदेखी न करें।

समारोह में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष सर्वश्री अरुण कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एस.के.श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, डी.के.गुप्ता, प्रमुख वित्त सलाहकार, वी.के.गर्ग, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, हरीश गुप्ता, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, श्रीमती प्रमिला सिंह, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, ए.बी.सरन मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर (परियोजना), के.के.सिंह, मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर (पी तथा डी), श्री सी.मरांडी, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, अमिताभ शर्मा, मुख्य जन संपर्क अधिकारी, एस.के.मिश्रा, सचिव/महाप्रबंधक तथा भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन श्री राजीव शर्मा, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीला यादव ने किया।

(अमिताभ शर्मा)
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
कोर/प्रयागराज